




प्रकाशक/स्वामीत्व
रजनी (पुत्री-महेश धावनिया)

डाक पंजियन संख्या : JaipurCity/423/2017-19

श्री बाबा



प्रधान कार्यालय-सी-57, महेश नगर, जयपुर-15, मो.-9928260244

हिन्दी मासिक समाचार पत्र



7073909291 E-mail:shreebaba_2008@yahoo.com

वर्ष : 12 अंक : 3 आर.एन.आई. नं. : RAJHIN/2008/24962



जयपुर, 5 मई, 2019

मूल्य : 5 रुपए प्रति

पृष्ठ : 4

वसुंधरा के राज में भाजपा के लोग ही योजनाओं का लाभ ले सके: गहलोत

थानागाजी (अलवर)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व केंद्र सरकार को झूठ का पिटारा बताते

प्रत्याशी सविता मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वही स्वास्थ्य मंत्री खुशरामने मोदी को आड़परी व



हुए जनसभा में कहा कि भाजपा कुशासन में केवल भाजपा के लोग ही योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने द्वेषता की सरकार चलाई हैं, जनता को झूठ बोल कर बोट लिए। कांग्रेस की चलाई गई सभी योजनाएं बंद कर उन पर अपना राज कर लिया। गहलोत दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस

देश के लोगों को गुमराह कर बोट लेने वाला बताया। थानागाजी विधायक कांती मीणा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे चुनावों में हर हाल में कांग्रेस प्रत्याशी को थानागाजी से विजयी बना कर भेजेंगे, परन्तु जो क्षेत्र के जनसम्प्रयाओं का ज्ञापन दिया जा रहा है, उनका समाधान करना पड़ेगा।

रक्तदान शिविर में हुआ 97 यूनिट एकत्रित

जयपुर। श्री नारायण मानव सेवा समिति द्वारा गोनेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया रक्तदान के पश्चात्

एवं शाखा सचिव दिनेश अग्रवाल मुख्य सलाहकार श्योजीराम मीणा, मंत्री सुरेश धवन, संरक्षक रामजी यादव, कोशाध्यक्ष लालाराम, महासचिव दीपक व्यास, उपाध्यक्ष अर्जुन महावर, महामंत्री दीपक राजवंशी, रामलाल लोदिया, लालाराम मीणा एवं समस्त कार्यकरिणी व काफी संख्या में गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

शाखा अध्यक्ष सीताराम बेनीवाल ने बताया के रक्तदान शिविर में कुल 97 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। प्रदेशाध्यक्ष चन्द्रमोहन चहेता ने शाखा की सम्पूर्ण कार्यकारिणी को धन्यवाद दिया इस मौके पर मंच संचालन कर्तव्य खण्डेलवाल, गोनेर सरपंच श्रीमती सुनीता शर्मा, विधायी सरपंच श्रीमती अनिता यादव



सभी रक्तदाताओं को प्रंगमा पत्र एवं उपहार वितरित किया गया। इस मौके पर बगरु विधायक श्रीमती गंगा देवी एवं जयपुर लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती ज्योती खण्डेलवाल, गोनेर सरपंच श्रीमती सुनीता शर्मा, विधायी सरपंच श्रीमती अनिता यादव

दसवाँ सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन 18 मई को

जयपुर। प्रगति सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन 18 मई, 2019 पीपल पूर्णिमा को सांगनेर, जयपुर में होने जा रहा है। इसमें वर पक्ष से 40,000 व वधु पक्ष से 35,000 रुपये सहयोग राशि रखी गई है। वर-वधु को उपहार में मोटर साईकिल,



100 वर्ग गज भूखण्ड, 2 लाख की एफ.डी., सोने व चांदी के आभूषण एवं घरलू सामान दिये जायेंगे। कार्यालय : दु. नं. 5, गुरुकृष्ण टॉवर, बेसमेंट, अरविंद श्री विद्या मन्दिर के सामने, नगर निगम रोड, जयपुर मो. 8094577888 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

समाचार विज्ञापन संकलन

श्री बाबा समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि प्रत्येक माह की 5 तारीख है। अतः समाचार एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति, फोटो आदि सामग्री माह की 20 तारीख तक पूर्ण विवरण के साथ भिजवा दें। सम्पर्क करें:

श्री बाबा whatsapp 7073909291

सी-57, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर-15
मो.-9928260244 E-mail : shreebaba_2008@yahoo.com

मोदी से सच बुलवाना, मच्छर को कपड़े पहनाने जितना कठिन: गहलोत

जयपुर। सीएम अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रुबरु हुए।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत झूठ बोलते हैं। इसका

उदाहरण देने के लिए सीएम ने अपने मोबाइल पर एक संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था कि - मोदी से सच बुलवाना उतना ही मुश्किल है जितना कठिन कपड़े पहनाना और हाथी को गोद में छुलाना।

इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने देश के लिए सीएम ने देश के लिए सीएम ने अपने मोबाइल पर एक संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था कि - मोदी से सच बुलवाना उतना ही मुश्किल है जितना कठिन कपड़े पहनाना और हाथी को गोद में छुलाना।

मोदी फिर पीएम नहीं बन सकेंगे: गहलोत ने कहा - देश में अंडरकरंट चल रहा है और मोदी जी अगले पीएम नहीं बनने वाले हैं।

दौसा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और गुरुर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला द्वारा एकसाथ मंच शेयर करने पर गहलोत ने कहा कि ये तो आयाराम - गयाराम हैं। इनके बारे में क्या बात करें।

गहलोत ने मोदी से कुछ इस तरह पूछे 40 सवाल

- कितने करोड़ को रोजगार दिया?
- गंगामैया कितनी साफ हुई?
- बुलेट ट्रेन के कितने कोच बने?
- धारा 370 पर क्या हुआ?
- कश्मीरी पंडितों को घर मिला?
- डीजल-पेट्रोल सस्ता हुआ?
- महंगाई कितनी कम हुई?
- चीन थर-थर कांपा क्या?
- सौ दिन में कालाधन आया?
- किसानों की आत्महत्या रुकी?
- कितने बांगलादेशी खेड़े गए?
- अच्छे दिन आ गए क्या?

मेहरा सेवानिवृत

जयपुर। श्री रामलाल मेहरा कनिष्ठ सहायक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर पद से दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को अपनी सफल गरिमामय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत हुए।

इस अवसर पर विभाग की ओर से श्री मेहरा का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया साथ ही हरियाणा मैरिज गार्डन महेश नगर जयपुर में परिवारजन, समाज एवं मित्राङ्गों द्वारा माला एवं साफा बांधकर व स्मृति चिन्ह भेट कर समान किया गया साथ ही आये हुए सभी मेहमानों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की।

आनंद कश्यप, पूर्व आईएस

आरपीएसीसी के पूर्व अध्यक्ष ललित के.

पंवार एवं समिति अध्यक्ष पूर्व आईएस

एलसी असवाल ने बुद्ध प्रार्थना कर एवं दीप जलाकर शुरुआत की। नागपुर के संविधान विशेषज्ञ अनिरुद्ध शेवाले की 15 सदस्यीय टीम ने डॉ. अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन दर्शन

की कथा प्रस्तुत की। समारोह में समिति के महासचिव फूलचंद बिलोनिया, उपाध्यक्ष बाबूलाल राणा, रणजीत सिंह जाटव, जिलाध्यक्ष सूरजमल बुनकर, जगतपुरा क्षेत्र से सुरेश आलोरिया, रामअवतार शेरसिया, एडवोकेट राजेंद्र दायमा, जगदीश प्रसाद बिलोनिया सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

विशेषज्ञ टीम ने डॉ. अंबेडकर की जीवन दर्शन कथा बताई

जयपुर। बाबा साहेब डॉ. भीमराव

अंबेडकर की 128वीं जयंती पर डॉ.

बी.आर. अंबेडकर जयंती समारोह समिति

एलसी असवाल ने बुद्ध प्रार्थना कर एवं दीप जलाकर शुरुआत की। नागपुर के संविधान विशेषज्ञ अनिरुद्ध शेवाले की 15 सदस्यीय टीम ने डॉ. अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन दर्शन

की कथा प्रस्तुत की। समारोह में समिति के महासचिव फूलचंद बिलोनिया, उपाध्यक्ष बाबूलाल राणा, रणजीत सिंह जाटव, जिलाध्यक्ष सूरजमल बुनकर, जगतपुरा क्षेत्र से सुरेश आलोरिया, रामअवतार शेरसिया, एडवोकेट राजेंद्र दायमा, जगदीश प्रसाद बिलोनिया सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

की कथा प्रस्तुत की। समारोह में समिति के महासचिव फूलचंद बिलोनिया, उपाध्यक्ष बाबूलाल राणा, रणजीत सिंह जाटव, जिलाध्यक्ष सूरजमल बुनकर, जगतपुरा क्षेत्र से सुरेश आलोरिया, रामअवतार शेरसिया, एडवोकेट राजेंद्र दायमा, जगदीश प्रसाद बिलोनिया सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

काम करने वाले 15 अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था अध्यक्ष डॉ. भजन लाल रोलन, विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी, किशनपाल विधायक आमीन कागजी, बगरु विधायक

गंगा देवी, हनुमान प्रसाद, महेंद्र सिंह, पीसी हार्डिंगा, नवीन डांगी, कन्हैया लाल बैरवा, गुरु चरण राय, सीएम काला, पीसी बेरवाल

इनके वोटों की भी सौचे चुनाव आयोग

इन दिनों पूरे भारत भर में लोकतंत्र का महान त्योहार 'मतदान' अलग-अलग चरणों में मनाया जा रहा है। लोग बड़े ही हृषीक्षण के साथ मतदान कर रहे हैं। क्या बूढ़े और क्या जवान, क्या मर्द और क्या औरतें, सभी इस त्योहार को बड़े ही जोख-खोख से मनाते हैं और मतदान के दिन अपना फर्ज़ अदा करते हैं। कई स्थानों पर तो ऐसे दृष्टि देखने को मिलते हैं कि हमारा सीनी गर्व से भर उठता है और अनायास ही हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि वाह! जब तक ऐसे जज्बे वाले भारतीय ज़िन्दा हैं तब तक लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है और ऐसे ही सद्नागरिकों की वजह से लोकतंत्र न केवल फल-फूल रहा है बल्कि मजबूत भी हो रहा है।

भयंकर गर्मी के मौसम में पालने में दूधमुँह बच्चे को झुला ड्यूटी को अंजाम देती महिला पुलिसकर्मी या मतदानकर्मी, कंधे पर, खाट पर या कावड़ में बैठकर आये शतायु पार या वृद्ध मतदाता का मतदान करना, किसी दुर्घटना में बुरी तरह घायल अस्पताल में भर्ती मरीज का मतदान करना, दिव्यांगों (खासकर चलने-पिणे में लाचार) द्वारा मतदान करना, नवप्रसूताओं या प्रसवपीड़ा झेल रही स्त्रियों द्वारा मतदान, मीलों दूर तपती दोपहरी में पैदल चलकर मतदान करना आदि ऐसे ही उदाहरण हैं।

जहाँ कई लापरवाह लोग छोटे-मोटे बहाने बनाकर मतदान नहीं करते हैं वहाँ कई लोग सैंकड़ों किलोमीटर से सिर्फ मतदान करने ही आते हैं। इसी प्रकार कई बुजुर्गों की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे कहते-फिरते हैं कि 'फैली म्ह बोट दे ल्यू, फेर तो चाई भगवान ही बुला ल, मन डरपू'। और संयोग भी कछु ऐसा होता है कि इधर तो वोट डाला और उधर प्राण-

-श्याम सुन्दर बैरवा, भीलवाड़ा

जानिए कैसे शाम की सैर से सेहत को मिलते हैं यह लाभ

सेहत का ख्याल रखने का एक सबसे आसान तरीका है वॉक करना। आप चाहें किसी भी उम्र के हों, वॉक बेहद आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, जो सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में पार्क में वॉक ही नहीं कर पाते।



और फिर वह अपनी दिनचर्या में टहलने को शामिल ही नहीं कर पाते। जिन लोगों के पास सुबह वॉक नहीं होता, उन्हें शाम को अवश्य टहलना चाहिए। इससे स्वास्थ्य को कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में-

होती है एक्सरसाइज

वॉक को एक बेहतरीन एक्सरसाइज माना गया है। अगर आप दिनभर काम के बाद थक गए हैं और हाई इंटेसिंटी एक्सरसाइज करना आपके लिए संभव नहीं है तो भी आप वॉक तो कर ही सकते हैं। इससे आप खुद को बेहद आसानी से फिट व हेल्दी बनाए रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है।

आराम का अहसास

अमूमन दिनभर कंप्यूटर पर काम

पर्खेर अनन्त यात्रा पर निकल पड़े।

एक तरफ तो यह सब है, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं और नियमों की जटिलताओं के चलते कितने ही व्यक्ति मतदान करने से विचित्र रह जाते हैं जबकि लोकतंत्र के इस त्योहार में इनकी आहुतियां अहम हैं।

मैं भारत निर्वाचन आयोग का ध्यान उन तमाम ड्राईवरों, खलासियों और चुनाव व्यवस्था में लगे कामगरों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो कई प्रकार से इस कार्य की कमान संभाले रहते हैं। अधिकतर इनके वोट नहीं डल पाते हैं, जबकि ये दिन-रात चुनावी कार्य में ही लगे रहते हैं। इंडीसी या पोस्टल बैलेट कैसे और कहाँ अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, यह इनको पता ही नहीं होता है और न ही कोई विषेष ट्रेनिंग सत्र इनके लिये चलाया जाता है। इनमें भी अधिकतर यही समझकर संतोष कर लेते हैं कि अपने वोट पहले भी कभी नहीं डलते थे तो इस बार कैसे डलेंगे? जबकि चुनाव आयोग मतदान का प्रतिष्ठत बढ़ाने के लिये अरबों रुपये खर्च कर रहा है और विभिन्न तरह की योजनायें चला रहा है। इन योजनाओं में इन कामगरों का भी अहम योगदान होता है। बावजूद इतना होने के भी प्रधासन के सबसे करीब रहने वाले लोगों के वोट डलने से रह जाते हैं।

अतः इन कामगरों के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर नियमों में इस प्रकार बदलाव करना चाहिये या फैला देनी चाहिये कि ये भी गर्वपूर्वक मतदान कर सकें और लोकतंत्र के इस महान ज्ञान के कर्ता ही नहीं बनें, बल्कि अपने वोट की आहुति भी दे सकें। आखिरकार वाहन चालक और उसमें बैठे साहब, दोनों के वोट की कीमत समान ही तो होती है।

-श्याम सुन्दर बैरवा, भीलवाड़ा

इन टिप्प से मजबूत बनाएं शरीर

बार-बार किसी प्रकार के संक्रमण या फिर मौसमी एलर्जी से ग्रसित होने का मतलब है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

इम्यूनिटी आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स से लड़ने की क्षमता होती है। शरीर में टॉक्सिन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मसलन बैक्टीरिया, वायरस या फिर अन्य नुकसानदेह पैरासाइट्स। सच तो यह है कि शरीर के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं, जो आपको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। शरीर को बाहरी संक्रमण और



बीमारियों से बचाकर रखने के लिए शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है, जिसे इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो आप न केवल बदलते मौसम में होने वाली सर्दी, खांसी जैसी समस्या से बचे रहते हैं, बल्कि इसकी वजह से आप हेपेटाइटिस, फेफड़े के संक्रमण, किडनी के संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. हिमांशु शेखर के अनुसार, अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी दुरुस्त रहने पर व्यक्ति न केवल कम बीमार पड़ता है, बल्कि बीमार पड़ने पर जल्दी ठीक भी हो जाता है।

क्या हैं लक्षण

1. मौसम बदलने के साथ सर्दी-जुकाम हो जाना।

2. हर समय सुस्ती-सी महसूस होना।

3. बीमार होने पर जल्दी ठीक न हो पाना।

4. थोड़ा काम करने पर भी थक जाना।

बढ़ा सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता

अपनी दिनचर्या और खानपान में थोड़ा बदलाव कर आप खुद को स्वस्थ रखने के साथ-साथ अपनी इम्यूनिटी को भी सुधार सकते हैं। सच तो यही है कि जब आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहेगा, तभी आप अच्छी सेहत के मालिक बने रह सकेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। आप जो एनर्जी लेते हैं, वो पच जाने से आपकी पाचन क्षमता दुरुस्त रहती है। इसके लिए आप अपने व्यायाम में योग और मेडिटेशन के साथ सैर को भी शामिल करें।

पोषण मिलने के साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

बजन रखें नियंत्रित

मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह है। सच तो यह है कि



मोटे लोग पतले लोगों के मुकाबले पेट से जुड़ी बीमारियों से ज्यादा ग्रसित होते हैं। मोटापे की वजह से आप डायबिटीज और रक्त चाप जैसी समस्याओं से भी पीड़ित हो सकते हैं। मोटापे की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। मोटापे की वजह से सफेद कोशिकाएं बनने में दिक्कत होती है। जब शरीर में सफेद कोशिकाएं कम होने लगती हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।

शारीरिक सक्रियता है जरूरी

खुद को स्वस्थ रखने और अपनी इम्यूनिटी को सुधारने के लिए शरीर का सक्रिय रहना जरूरी है। जब आप काम नहीं करते हैं और भूख लगने पर खाना खा लेते हैं, तो आप पेट से जुड़े बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। शारीरिक नियंत्रिता आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। इससे बचने के लिए नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। आप जो एनर्जी लेते हैं, वो पच जाने से आपकी पाचन क्षमता दुरुस्त रहती है। इसके लिए आप अपने व्यायाम में योग और मेडिटेशन के साथ सैर को भी शामिल करें।

आठ घंटे की नींद है जरूरी


सेहतमंद रहने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। डॉक्टरों का भी मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए आठ घंटे की गहरी नींद पूरी है। सच तो यह है कि सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं की वजह नींद पूरी न हो पाना है। बदलती हुई दिनचर्याएँ आप रात के समय भी काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद बाधित होती है। अगर आप खुद को स्वस्थ रखने के साथ अपनी इम्यूनिटी को सुधारना चाहते हैं, तो इसक



जयपुर। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की पहल पर मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार द्वारा सचिवालय परिसर में परिषट्टे लगाये।

वाजपेयी सरकार ने अजहर मसूद को पाकिस्तान को सौंपा था: खाचरियावास

जयपुर। परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने



कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेय अजहर मसूद को हवाई जहाज में

बीएड शिक्षकों को अब नेट होना जरूरी

जयपुर। आरयू से संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की शिक्षायतों के बाद आरयू ने शिक्षकों के लिए नेट पास होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ने कई बीएड कॉलेजों में शिक्षकों के नाम से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पूरी जानकारी मांगी थी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रर विवेक कुमार ने एनसीटीई के नियमों का हवाला देते हुए बीएड, बीपीएड, एमएड के शिक्षकों को नेट पास होना जरूरी है।



जयपुर। गर्भी के मौसम में राहगीरों किया गया इस मौके पर समिति के ठण्डे पानी की जरूरत को देखते हुये संस्थापक श्री चन्द्रमोहन चहेता, वार्ड नं. 36 के पार्शद श्री नवरत्न नराणियां व बाजार सांगानेर के मुख्य बाजार में प्याऊ उद्घाटन

तक अखण्ड भण्डारा चलता रहा तथा दिनांक 20.4.2019 की रात्रि को सत्संग का कार्यक्रम रहा।

कार्यक्रम के अंत में समिति के सचिव

ग्राम पंचालिया में मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा

जयपुर। बाबा रामदेव सेवा समिति पंचालिया द्वारा स्थानीय बैरवा समाज के सहयोग से निर्मित भव्य मन्दिर में दिनांक 20 अप्रैल, 2019 शनिवार को बाबा

बैरवा, कटेवा नगर से पं. नानकचंद, सांगानेर से पं. हरिप्रसाद बैरवा (खेजड़ी), संतोषनगर से पं. लक्ष्मीचंद, निवाई से पं. मुकेश शास्त्री, निमेड़ा से पं. बद्रीदास,



रामदेव, शिव परिवार एवं हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर दिनांक 19.4.2019 शुक्रवार को प्रातः 7.00 बजे 251 कलशों की भव्य कलश यात्रा निकाली गई तथा आचार्य समूह के पंडितों द्वारा सम्पूर्ण रामचरित मानस का पठन किया गया। दिनांक 20.4.2019 शनिवार को 21 कुण्डीय यज्ञ किया गया। प्रमुख कुण्ड पर श्री लालाराम जाजारिया बैठे।

यह आयोजन “आचार्य समूह” महर्षि बालीनाथ ज्योतिष एवं संस्कार शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के पं. गोपाल लाल बैरवा एवं पं. भवानी शंकर गोठवाल के आचार्यत्व में सम्पन्न हुआ। जिसमें सहयोग के लिए आचार्य समूह से सम्बद्ध टोके से पं. सुखलाल आर्य, पं. प्रहलाद दास, बपुई सराईमाथोपुर से पं. अर्जुन देव शास्त्री, बूंदी से पं. महावीरानन्द, पं. गंगाराम, पं. रामप्रसाद कौशिक, चांपानेरी से पं. लालदूराम आर्य, राजेन्द्र कुमार, केकड़ी से पं. भागचन्द, महेश नगर से पं. पी.डी.

गुणसी से पं. संजय आचार्य, झिराना से पं. राजेश, रामपुरा कला से पं. बलराम, गौतम नगर से पं. रामगोपाल, कपूरवाला से पं. रामगोपाल, भापुरा से पं. प्रभुदयाल, दौसा से पं. कमलेश बैरवा, दत्तवास से पं. रामवतार ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती गंगादेवी वर्मा, सरपंच श्री मदन लाल वर्मा, बैरवा महासभा के पदाधिकारी श्री शंकर लाल नागरवाल, श्री ओमप्रकाश कुवाल, श्री रोड़राम सुलानिया, श्री शार्तिस्वरूप बंशीवाल, आदि उपस्थित हुए। जिनका समिति के पदाधिकारियों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया।

सभी पंडितों का शाल व माला से तथा प्रमुख आचार्यों पं. गोपाल लाल बैरवा तथा पं. भवानी शंकर गोठवाल का माला, शाल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में आचार्य समूह के अध्यक्ष श्री लालदूराम बैरवा भी उपस्थित हुए। दिनांक 19.4.2019 को प्रातः 9.00 बजे से 20.4.19 को रात्रि 12.00 बजे

बिठाकर भारत के जेल से ले जाकर छोड़ा था। एनडीए सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह उसे छोड़ने के लिए गए थे। उस गलती के लिए आज प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वह गुरुवार को प्रेस कांफेंस में बोल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवंद्र सिंह फिलहाल कांग्रेस के टिकट से बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। तत्कालीन भाजपा और एनडीए सरकार

के नेताओं ने ही अजहर मसूद को रिहा किया था। अजहर मसूद पहले से ही आतंकवादी है जो भारत की जेल में बंद था। अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से अजहर मसूद को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि हमने मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाया है यह बिल्कुल झूठा और गैर जिम्मेदाराना बयान है।

मलेरिया व डेंगू की मॉनिटरिंग अब ‘गूगल मैप’ से भी होगी

जयपुर। मच्छर जनित मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा स्वाइन फ्लू बीमारी से पीड़ित पॉजिटिव मरीजों की मॉनिटरिंग अब गूगल मैप के जरिए होगी। इसके लिए जियोग्राफिकल इंफोर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) मैप तैयार किया जा रहा है। टीम के सदस्यों के पॉजिटिव मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए जाने पर लोकेशन शेरर करने पर आसपास के क्षेत्र में पाए गए मरीजों का भी आसानी से पता चल सकेगा। प्रथम चरण में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। सफल होने पर प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि

सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम फेज में कुछ जिलों में शुरू करेंगे। जिससे क्षेत्र में पाए जाने वाले पॉजिटिव मरीजों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी।

ये होगा फायदा

पॉजिटिव का पता चलने पर बीमारी पर नियंत्रण करना आसान, संक्रमित मरीज का आइसोलेशन करने पर दूसरों के बीमारी नहीं फैला सकेंगे। रिपोर्टिंग भी सही व सटीक हो सकेगी। नगर निगम को प्रभावित क्षेत्रों में फोगिंग, एंटीलार्वा जैसी गतिविधि आसानी से कर सकेंगे। मौजूदा स्थिति में पॉजिटिव मरीज के पाए जाने पर आसपास के क्षेत्र में कितने पॉजिटिव मरीज हैं, और कहाँ-कहाँ हैं। इसका पता भी चल जाएगा।

समर्पण वस्त्र बैंक ने बाटे जरूरतमंदों को कपड़े



जयपुर। समर्पण संस्था की ओर से स्थापित वस्त्र बैंक से बुधवार को बाइस गोदाम क्षेत्र में फूटापाथ व चुलिया के नीचे रहने वाले जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए गए।

वस्त्र वितरण के तहत आसपास के अलग-अलग क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं

व पुरुषों के विभिन्न साइजों में पैकेट बनाकर कपड़े बांटे गए।

इस अवसर पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दौलत राम माल्या, संयुक्त सचिव ईदिरा चौधरी, कार्यालय प्रबंधक त्रिलोक माल्या, सदस्य गुलाब देवी, प्रकाश बैरवा, सुरेश माल्या उपस्थित रहे।

अल्बर्ट हॉल पर बैंड वादन कर दिया मतदान जागरूकता का सदैश



जयपुर। जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर की ओर से लोकसभा आमचुनाव के माध्यम से मतदान के लिए जागरूकता का सदैश दिया गया। संस्कार विद्यालय के छात्रों ने बैंड वादन के माध्यम से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर किया। इससे पूर्व नाट्य कलाकारों द्वारा नाटक के माध्यम से आम

जन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और मतदान का महत्व बताया गया। कार्यक्रम में ईवीएम और बीवीपैट मशीन के माध्यम से मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जयपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी डॉ. भारती दीक्षित ने मतदान का महत्व बताते हुए उपस्थित लोगों से मतदान प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने आगामी 6 मई, 2019 को लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय की मतदान से सम्बंधित सवालों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर जयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी डॉ. भारती दीक्षित ने मतदान का महत्व बताते हुए उपस्थित लोगों से मतदान के लिए जागरूकता दिलाई। इस अवसर पर जयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी डॉ. भारती दीक्षित ने मतदान का महत्व बताते हुए उपस्थित लोगों से मतदान के लिए जागरूकता दिलाई। इस अवसर पर जयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी डॉ. भारती दीक्षित ने मतदान का महत्व बताते हुए उपस्थित लोगों से मतदान के लिए जागरूकता दिलाई।